



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]
No. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 1978/माघ 4, 1899
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 1978/MAGHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 46/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि यदि समुचित प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाये कि ऐसे नालीदार बोर्ड को क्रेफ्ट पेपर से या उस किस्म के कागज या पेपर बोर्ड से उत्पादित किया जाता है जो जिसमें क्रेफ्ट लाइनर या नालीदार मध्यक के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक वक्ता में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक पदार्थ होता है और जिस पर सड़ें मीटर प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से उत्पाद-शुल्क अदा किया गया है तो ऐसे नालीदार बोर्ड को उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद तक शुल्क से छूट प्राप्त होगी।”

[14/78]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th January, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 38(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 46/71-Central Excises, dated the 24th April, 1971, namely :—

In the said notification, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that if it is proved to the satisfaction of the proper officer that such corrugated board has been produced out of craft paper or out of paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre, in each case, and on which the duty of excise has been paid at the rate of thirty-seven and half per cent ad valorem then such corrugated board shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon.”

[14/78]

सा० का० नि० 39(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और वीकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 127/77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिग्रहण करते हुए, नीचे की शर्तों के अन्तर्गत (2) में विनिर्दिष्ट

वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (2) के अन्तर्गत आता है, उस पर उद्ग्रहणीय उत्तने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उस मारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित दरों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1	सभी किस्म का कागज जो माधारणतया क्रेफ्ट पेपर कहलाता है और जिसके अन्तर्गत उस प्रकार का कागज और गत्ता (पेपर बोर्ड) भी है जो क्रेफ्ट लाइनर या नाशीदार मध्यक के रूप में जाना जाता है और जिसमें प्रत्येक दशा में 65 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर या उस से अधिक पदार्थ होता है।	मूल्यानुसार 37.5 प्रतिशत
2	अन्य	मूल्यानुसार 30 प्रतिशत

[15/78]

G.S.R. 39(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in super-session of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 127/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (2) of the Table below and falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	All sorts of paper commonly known as kraft paper, including paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium, of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metro in each case.	37.5% <i>ad valorem</i> .
2.	Others.	30% <i>ad valorem</i> .

[15/78]

सा० का० नि. 40(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उप-मद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित स्ट्रा बोर्ड को, जिनके विनिर्माण में शुष्कन प्रक्रिया का, जिसे सामान्यतः धूप में सुखाने की प्रक्रिया कहते हैं, प्रयोग किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दश प्रतिशत से अधिक है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये “स्ट्राबोर्ड” ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जिसे अंशतः पकाये गये अखिरजित स्ट्रा या बगाम या फासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया गया हो, परन्तु—

(i) किसी ऐसी सामग्री को, जिसे प्रयोग में लाया गया हो, मात्रा संघटकों के कुल भार के एक तिहाई भार से अधिक नहीं होगा, और

(ii) ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से सपीडिन नहीं किया जायेगा और उस को किसी भी सतह पर कोई कागज चिपकाया नहीं जायेगा

[16/78]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts straw board, falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in the manufacture of which drying process, commonly known as sun-dry (sun-drying) process, has been employed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. *ad valorem*.

Explanation.—For the purposes of this notification “straw board” means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these: provided that—

(i) the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and

(ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[16/78]

R. K. CHANDRA, Under Secy.